



## \*प्रेस विज्ञप्ति\*



**\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक जून 07, 2022\***

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 148 वाहनों का चालान किया गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-59 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*पैदल गश्त अभियान-\*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

**\*आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त इन्द्र प्रसाद पुत्र मेवा नि0 बड़हरा थाना बरगदवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 45 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 104/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त मुक्तिनाथ पुत्र रामअवध नि0 डिगही थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 231/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*जुआ अधिनियम में की गयी कार्यवाही\***

**\*थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त 1. मदन कन्नौजिया पुत्र रामजी 2. ओमप्रकाश पुत्र रामसेवक 3. मथई पुत्र श्री किशुन नि0 मनिकौरा थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज 4. कृष्णनाथ मौर्या पुत्र रामदेव नि0 महदेवा थाना फरेन्दा के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 119/22 धारा 13 जुआ अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त इन्दल पुत्र हरिलाल गौतम नि0 मरचहवां थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 बोरी यूरिया खाद व एक अदद मोटरसाईकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 3/11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-24 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

**\*जनपद में 06/07.06..2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 61 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\***